



ग्लोबल टैक्स इवैशन रपिर्ट, 2024

प्रलिमिन्स के लिये:

ग्लोबल टैक्स इवैशन रपिर्ट 2024, कर चोरी, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्ज़र्वेटरी, वैश्विक न्यूनतम कर।

मेन्स के लिये:

ग्लोबल टैक्स इवैशन रपिर्ट 2024, समावेशी विकास तथा इससे संबंध मुद्दे।

[स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्ज़र्वेटरी (European Union Tax Observatory) ने 'ग्लोबल टैक्स इवैशन रपिर्ट, 2024' (Global Tax Evasion Report 2024) जारी की है जिसमें अरबपतियों पर [वैश्विक न्यूनतम कर](#) (Global Minimum Tax- GMT) और कर चोरी से निपटने के उपायों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

नोट: यह रपिर्ट पछिले 10 वर्षों में अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय सुधारों (जैसे कि बैंक जानकारी का स्वचालित अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान तथा [बहुराष्ट्रीय कंपनियों \(MNCs\) के लिये वैश्विक न्यूनतम कर](#) पर अंतरराष्ट्रीय समझौता तथा अन्य मुद्दों के बीच) के [प्रभावों](#) की जाँच करती है।

- धनी व्यक्तियों द्वारा ऑफशोर टैक्स इवैशन का सामना करने के लिये सूचनाओं का स्वचालित आदान-प्रदान वर्ष 2017 में शुरू किया गया था।

कर चोरी:

- कर चोरी**, आय को कम दिखाकर, कटौतियों को बढ़ाकर, ऑफशोर एकाउंट्स में पैसा छपिाकर, या किसी की कर देनदारी को कम करने के लिये अन्य धोखाधड़ी वाले तरीकों का उपयोग करके सरकार को **देय करों का भुगतान न करने का अवैध कार्य** है।
- यह वित्तीय जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या छुपाकर **कर दायित्वों को कम करने का एक सुवचारित और गैर-कानूनी प्रयास** है।

वैश्विक न्यूनतम कर (GMT):

- GMT पूरे विश्व में [परभाषित कॉर्पोरेट आय के आधार पर](#) एक मानक न्यूनतम कर दर लागू करता है।
- OECD ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वित्तीय मुनाफे पर 15% का [कॉर्पोरेट न्यूनतम कर प्रस्तावित किया है](#), जिससे देशों को 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक कर राजस्व प्राप्त हो सकेगा।
- अक्टूबर 2021 में भारत सहित 136 देशों के एक समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये न्यूनतम वैश्विक कर दर 15% निर्धारित की और उनके लिये इस काराधान से बचने की प्रक्रिया को कठिन बनाने की मांग की है।
- GMT की रूपरेखा का उद्देश्य नमिन कर दरों के माध्यम से देशों को कर प्रतस्पर्धा से हतोत्साहित करना है जिसके परिणामस्वरूप [कॉर्पोरेट लाभ में बदलाव और कर आधार का कषरण](#) होता है।

रपिर्ट के मुख्य बडि:

- अपतटीय कर चोरी को रोकने में चुनौतियाँ:**
 - पछिले एक दशक में **अपतटीय कर चोरी में कमी आई** है। वर्ष 2013 में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 10% हस्सा वैश्विक टैक्स हैवन में संगृहीत किया गया था, लेकिन अब इस धनराशि का केवल 25% भाग ही कर मुक्त रह गया है।
 - हालाँकि इसमें चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें **अपतटीय वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर-अनुपालन** और बैंक सूचनाओं के स्वचालित आदान-

प्रदान में सीमाएँ शामिल हैं।

■ **0% के बराबर कर दरें:**

- शेल कंपनियों का उपयोग प्रायः आयकर से बचने के लिये किया जाता है, इस कारण वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संपत्ति पर प्रभावी कर दरें 0% से 0.5% हैं।
- अमेरिकी अरबपतियों के लिये प्रभावी कर दर उनकी संपत्ति के 0.5% के बराबर है और फ्रांसीसी अरबपतियों के लिये कर की दर शून्य है।

■ **बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाभ स्थानांतरण:**

- बहुराष्ट्रीय नगिम्स (MNCs) ने वर्ष 2022 में लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर टैक्स हवन में स्थानांतरित कर दिया है, जो उनके मुख्यालय वाले देशों के बाहर अर्जति मुनाफे के 35% के बराबर है।
- रिपोर्ट ने "ग्रीनवॉशिंग द ग्लोबल मनिमि टैक्स" की प्रवृत्ति को लाल झंडी दिखा दी है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कम कार्बन संक्रमण के लिये 'ग्रीन' टैक्स क्रेडिट का उपयोग कर अपनी कर दरों को 15% से कम कर सकती हैं।

■ **नीतिविकल्पों का महत्त्व:**

- कर चोरी, धन छपिना और लाभ को टैक्स हवन में स्थानांतरित करना प्राकृतिक घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि नीतिविकल्पों या आवश्यक विकल्प चुनने में वफिलता के परिणाम हैं।
- कर नीतियों के परिणामों का मूल्यांकन करने और टकिऊ कर प्रणालियों के लिये सुधार करने की आवश्यकता है।

■ **अनुशंसाएँ:**

- रिपोर्ट अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर का समर्थन करती है, जिसमें उनकी संपत्ति पर 2% की दर का प्रस्ताव है। ऐसे धनी लोगों पर कर लगाने के लिये तंत्र स्थापित करना जो किसी देश में लंबे समय से नवासी हैं और कम कर वाले देशों में नविश का विकल्प चुनते हैं।
- इस उपाय को विश्व भर की सरकारों के लिये अपना राजस्व बढ़ाने, धन असमानता को दूर करने और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं बुनियादी ढाँचे जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाओं को वित्तपोषित करने के लिये आवश्यक माना जाता है।
- 25% की दर लागू करने के लिये न्यूनतम कॉर्पोरेट कराधान पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते में सुधार किया जाना चाहिये और इसमें कर प्रतिसिपर्द्धा को बढ़ावा देने वाली कमियों को दूर करना चाहिये।
- इन मुद्दों पर वैश्विक समझौते वफिल होने की स्थिति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अरबपतियों के कुछ कर घाटे को एकत्रित करने के लिये एकतरफा उपाय लागू करने की आवश्यकता है।
- इन मुद्दों पर वैश्विक समझौते वफिल होने की स्थिति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अरबपतियों के कुछ कर घाटे को एकत्रित करने के लिये एकतरफा उपाय लागू करने की आवश्यकता है।
- कर चोरी से बेहतर ढंग से निपटने के लिये ग्लोबल एसेट रजिस्ट्री के निर्माण की दशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
- आर्थिक वस्तुओं तथा दुरुपयोग वशिधी नयिम्स के अनुप्रयोग को बेहतर करने की आवश्यकता है।

आय कर और संपत्तिकर में अंतर:

- संपत्तिकर का आकलन संपत्तिस्टॉक या करदाता के स्वामित्व वाली शुद्ध संपत्तिकी कुल राशि पर किया जाता है, जबकि आयकर संपत्तिस्टॉक से प्रवाह पर लगाया जाता है।
- संपत्तिकर का उदाहरण: संपदा कर, उपहार कर और वरिसत कर एकमुश्त या कभी-कभार मूल्यांकन किये गए संपत्तिकर के उदाहरण हैं।

कर चोरी रोकने हेतु सरकारी उपाय:

- [ई-चालान](#)
- [भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018](#)
- [काला धन \(अधोषति वदिशी आय और संपत्ति\) कर अधरिपण अधिनियम, 2015](#)
- [धन शोधन नवारण अधिनियम, 2002](#)।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. 'आधार क्करण और लाभ स्थानांतरण' शब्द को कभी-कभी समाचारों में किसके संदर्भ में देखा जाता है? (2016)

- (a) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संसाधन संपन्न लेकनि पछिडे क्षेत्रों में खनन संचालन
- (b) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर अपवंचन पर अंकुश लगाना
- (c) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी देश के अनुवांशिक संसाधनों का शोषण
- (d) विकास परयोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागत के वचिर की कमी

उत्तर: (b)

